



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 25, सोमवार, शके 1941-सितम्बर 16, 2019  
Bhadra 25, Monday, Saka 1941-September 16, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 04, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/8781** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Laxmangarh has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Laxmangarh. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Government.**

कार्यालय नगरपालिका लक्ष्मणगढ जिला (सीकर) राज.

प्रपत्र - क

वार्ड संख्या	वार्ड की परिसीमा
1	नगरपालिका सीमा के उतरी पश्चिम कोने से इन्दिरा आवासीय एस.टी.पी से शुरू होकर पुनः एन.एच. 52 पर पहुंचकर दक्षिण में घुमकर खटीको की प्याऊ को दक्षिण छोड़ते हुये पूर्व में चलते हुये उतरी आबादी को शामिल करते हुये सरफुदीन लुहार के गैराज तक वहा से उत्तर में घुमकर गिरधारी जांगीड के मकान को छोड़ते हुये वहा से पश्चिम में घुमकर सरीफ बिसायती के नोहरे तक दक्षिणी आबादी को शामिल कर उतर में चलते हुये बाबुलाल चौहान तक वहा से पूर्व में घुमकर खटीको के चौक को शामिल कर छाजुराम जांगीड के मकान तक वहा से उत्तर में घुमकर पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुये प्रारम्भिक बिन्दु एसटीपी तक का वार्ड 1 होगा।
2	प्रारम्भिक बिन्दु खटीको की प्याऊ व बालाजी मन्दिर से दक्षिण में एन.एच. 52 पर चलते हुये पेट्रोल पम्प को सालासर रोड के गेट को शामिल करते हुये वापिस उत्तर की ओर घुमकर तोदी कॉलेज की सीमा को पूर्व में छोड़ते हुये नवीन बस स्टेण्ड को शामिल करते हुये व तोदी कॉलेज को दक्षिण की तरफ छोड़ते हुये पूर्व की तरफ सडक चलते हुये विद्युत विभाग के शिकायत कक्ष को शामिल करते हुये वहा से उत्तर में घुमकर पूर्णनाथ जी की बगिची को शामिल करते हुये सडक चलते हुये एस.आर. स्कुल के खेल मैदान तक (पूर्वी उतरी कोना) वहा से पश्चिम की तरफ चलते

	हुये दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुये प्रारम्भिक बिन्दु खटीको की प्याऊ तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वार्ड नं. 2 होगा।
3	प्रारम्भिक बिन्दु पुलिस चौकी से सडक-सडक एन.एच 52 पर दक्षिण की तरफ चलते हुये पूर्वी आबादी को शामिल करते हुए कब्रिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक वहा से पूर्व में चलते हुये उत्तरी आबादी शामिल करते हुये पूर्व में सडक चलते हुये इकबाल गन्नी जोया के घर तक वहा से उत्तर में घुमकर सडक चलते हुये तोदी कॉलेज की दिवार के सहारे बनी ट्यूबवेल से पूर्व में फियाज पडियार के घर को शामिल कर धोबियो के नोहरे को दक्षिण में छोडकर रामपाल कुमावत के प्लाट को उत्तर में शामिल करते हुये उत्तर में घुमकर सडक चलते हुये भंवर लाल कुमावत के घर को पश्चिम में शामिल करते हुये पवन कुमार रणजीत सिंह के घर को लेते हुए उत्तर में चलते हुये तोदी कॉलेज रोड पहुंच कर परमेश्वरी देवी पत्नि लादुराम ढाका की दुकान तक वहा से पश्चिम में रोड रोड चलते हुये तोदी कॉलेज को उत्तर में शामिल करते हुये प्रारम्भिक बिन्दु पुलिस चौकी तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वार्ड नं 03 होगा।
4	प्रारम्भिक बिन्दु केशर देव बलाई के घर से दक्षिण में एन.एच. 52 पर चलते हुये मेहन्दी हसन की दुकानो तक वहा से पूर्व में घुमते हुये अनवर काजी के घर तक वहा से उत्तर की तरफ घुमकर सडक चलते हुये रफीक पुत्र नथु काजी को पश्चिम में शामिल करते हुये पूर्व में रोड की तरफ घुमते हुये उत्तरी आबादी को शामिल करते हुये राधाकिशन चौहान को शामिल कर वहा से पश्चिम में घुमकर वापिस प्रारम्भिक बिन्दु केशर देव बलाई के घर तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वार्ड नं. 04 होगा।
5	प्रारम्भिक बिन्दु उत्तरी पश्चिमी कोने पर मुकेश कुमार बलाई पुत्र मंगलाराम के घर से दक्षिण कि तरफ सडक चलते हुये इकबाल व्यापारी के प्लाट तक वहा से वापिस पश्चिम में घुमकर एन.एच 52 पर सफी काजी की दुकान को शामिल कर एन.एच 52 पर पूर्व दक्षिण चलते हुये इस्लामपुरा बस स्टैण्ड पर पहुंच कर फारूक सैयद के मकान को शामिल करते हुये वहा से पूर्व उत्तर में घुम कर पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुये सलीम युसुफ व्यापारी के मकान तक वहा से पश्चिम में घुमकर फतेह मोहम्मद रहमतुल्ला के घर तक वहा से उत्तर में बाबु हाजी के सामने लुहारो के प्लाट को शामिल कर वहा से उत्तर पश्चिम चलते हुये यासिन बागडोदिया को शामिल कर वहा से पूर्व की तरफ उत्तरी आबादी को शामिल कर सलीम बहलीम के मकान तक वहा से पश्चिम में घुम कर तैलीयो के प्लाट से कच्चे रास्ते चलते हुये पश्चिम में कोयती मदरसा तक वहा से पश्चिम उत्तर से कच्चे रास्ते घुमकर चेजारो के शमशानो के गेट तक वहा से उत्तर में घुमकर पश्चिम आबादी को शामिल कर टंकी तक वहा से उत्तर में सडक उत्तर की तरफ चलते हुये अर्जुन बलाई के मकान तक यहा से पश्चिम में घुमकर सडक चलते हुये प्रारम्भिक बिन्दु मुकेश बलाई के घर तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वार्ड 5 होगा।
6	इस्लामपुरा बस स्टैण्ड के उत्तरी पश्चिमी कोने से दक्षिण की तरफ एन.एच 52 सडक सडक चलते हुये सलीम सरखेल की स्कुल तक वहा से पुर्व में सडक सडक चलते हुये गुलाम नबी बहलीम के प्लाट तक वहा से उत्तर में घुमकर पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुये जाफर खा सरखेल के मकान तक वहा से पूर्व में घुम कर सडक चलते हुये बिलाल व्यापारी के मकान तक वहा से उत्तर की ओर चलते हुये नुरानी मस्जिद तक पश्चिम आबादी लेते हुये वहा से पश्चिम चलते हुये वहा से गुलाम हसैन तैली के मकान तक वहा से उत्तर की तरफ घुमकर पश्चिम में

	चलते हुये दक्षिणी आबादी को सम्मिलित कर आईसातुल बनात मदरसा तक वहा से उत्तर में घुम कर पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुये वापिस पश्चिम में घुम कर मदरसा को पुनः दक्षिण में शामिल करते हुये रोड चलते हुये दक्षिणी आबादी को सम्मिलित करते हुये बाबुहाजी के मकान तक वहा से दक्षिण में घुमकर पूर्वी आबादी को सम्मिलित करते हुये मुस्तफा कुरैशी के पिछे हिस्से को शामिल कर वहा से पश्चिम की तरफ घुमकर रफिक रमजान कुरैशी के मकान तक वहा से पश्चिम में घुमते हुये सडक चलते हुये प्रारम्भिक बिन्दु इस्लामपुरा बस स्टेण्ड तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वार्ड नं 6 होगा।
7	प्रारम्भिक बिन्दु इमरान पुत्र श्री खुशींद खाँ भाटी सनवाली वाले के नोहरे से दक्षिण में एन.एच 52 पर चलते हुये पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये मणासिया के रास्ते से घुमकर पूर्वी तरफ सडक हाजी जाफर के कृषि फार्म हाउस को सम्मिलित करते हुये यासीन ढाणी वाले तक वहा से पश्चिम में चलते हुये आरीफ पुत्र सफी तेली के मकान तक वहा से दक्षिण में चलते हुये पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये कमरुद्दीन आसाम वाले वहा से पश्चिम में घुमकर सडक चलते हुये सलीम हबीब पडिहार के प्लाट तक वहा से दक्षिण में घुमते हुये सब्बीर खत्री तक वहा से पश्चिम में घुम कर दक्षिणी आबादी को सम्मिलित करते हुये वापिस प्रारम्भिक बिन्दु इमरान पुत्र खुशींद भाटी तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वार्ड नं 7 होगा।
8	प्रारम्भिक बिन्दु अयुब पुत्र हनीफ रहमान की दुकानो से दक्षिण की तरफ शीधे सडक चलते हुये सलीम नाई के मकान तक (काल्पनिक) परमानन्द भार्गव के मकान को दक्षिण में छोडते हुये सडक तक वहा से उत्तर में घुमकर सलीम लीलगर से उत्तर में रास्ते चलते हुये केशरदेव चेजारा के मकान तक वहा से पश्चिम की तरफ घुमकर दक्षिणी आबादी को लेते हुये मुरारी लाल पुत्र जगनराम चेजारा के मकान से उत्तर में घुमकर गुगाजी के मन्दिर तक पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुये पूर्व में घुमकर संसारमील के प्लाट तक वहा से उत्तर में घुमकर तोदी दुर्गा पुजा के पिछे रास्ते पर पहुंचकर वहा से पश्चिम में घुमकर प्रारम्भिक बिन्दु अयुब पुत्र हनीफ रहमान की दुकान तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वार्ड नं 8 होगा।
9	प्रारम्भिक बिन्दु सलीम नाई के मकान से दक्षिण में सडक पूर्वी आबादी को शामिल कर चिराणियो के कुये तक एन.एच 52 पर पहुंच कर वहा से सीकर की तरफ एनएच 52 पर चलते हुये मोदी के सामने तिराहे पर पहुंचकर वहा से सीकर लिंक रोड पर उत्तर की तरफ सडक चलते हुये सराफो के मकान तक वहा से पश्चिम में घुमकर दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुये दीनदयाल चेजारा के मकान तक वहा से उत्तर में घुमते हुये पश्चिम आबादी को शामिल कर नारायण जी शर्मा तक वहा पश्चिम में घुमकर चेजारो के मन्दिर को पश्चिम में शामिल कर उत्तर में घुमकर किर्ती जोशी के मकान तक वहा से पश्चिम में घुमकर कमलजी टेलर तक वहा से दक्षिण में घुमकर पूर्वी आबादी को शामिल कर दक्षिण में चलते हुये परमानन्द भार्गव को दक्षिण मे लेते हुये वहा से काल्पनिक रास्ते से प्रारम्भिक बिन्दु सलीम नाई के मकान तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वार्ड नं 9 होगा।
10	प्रारम्भिक बिन्दु रामजी डीडवानिया के नोहरे से दक्षिण में चलते हुये पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये रामस्वरूप शुभजी चेजारा के मकान तक वहा से पश्चिम में घुमकर दक्षिणी आबादी लेते हुये सडक नन्दु विष्णु चेजारा के प्लाट तक वहा से दक्षिण में चलते हुये पूर्वी आबादी शामिल करते हुये मनोहरजी चेजारा के मकान तक वहा से पूर्व की तरफ घुमकर जुगलजी चेजारा के

	<p>मकान तक वहा से उतर में घुमकर (सुनारो का नोहरा) सावरमल वर्मा वहा से पूर्व में घुमकर आत्माराम जोशी के मकान तक पूर्व में चलते हुये राजेश जी डॉक्टर (सावरमल भूमिवाला) के खाली प्लाट तक वहा से दक्षिण की ओर सडक चलते हुये पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये काबरो की कुई तक वहा से पूर्व में घुमकर आदर्श विद्या मन्दिर के पश्चिम कोने तक वहा से दक्षिण में घुमकर पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये हनुमानजी माली के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर उतरी आबादी शामिल करते हुये लिंक रोड पर मोहन जी माली तक वहा से उतर में लिंक सीकर रोड चलते हुये पश्चिम आबादी को शामिल करते हुये जय गोविन्दजी पारीक तक वहा से पश्चिम में घुमकर प्रारम्भिक बिन्दु रामजी डीडवानिया तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वार्ड 10 होगा।</p>
11	<p>प्रारम्भिक बिन्दु उतरी पश्चिमी कोने पर हाजी हसन तेली के मकान से दक्षिण में चलते हुये पूर्वी आबादी को सुमार कर मांगीलाल मणियार के मकान तक वहा से पश्चिम में घुमकर बुधराम नाउवाला के नोहरे तक वहा से दक्षिण में घुमकर अब्दुल सत्तार सिक्का के मकान तक वहा से दक्षिण में चलते हुये बोदु रिमजु सिक्का तक वहा से पूर्व में घुमकर सन्तोष नाई का पुराने मकान तक वहा से उतर में घुमकर मदनलाल जाजोदिया की कोठी तक वहा से पश्चिम में घुमकर सत्यनारायण के मकान तक वहा से उतर में चलते हुये रमजान चोपदार के मकान तक वहा से पश्चिम में घुमकर प्रारम्भिक बिन्दु हाजी हसन तेली के मकान तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वार्ड नं 11 होगा।</p>
12	<p>प्रारम्भिक बिन्दु मांगीलाल ढाणी वाले से दक्षिण की तरफ चलते हुये जे.पी. भडिया के नोहरे तक वहा से पश्चिम में घुमकर गोरीशंकर सुरोलिया के नोहरे तक वहा से दक्षिण में घुमकर पूर्वी आबादी को सम्मिलित करते हुये हाजी अलाबन्दा तक वहा से पूर्व में चलते हुये राजकुमार मोहनलाल घासोलिया की चक्की तक वहा से दक्षिण में घुमकर पूर्वी आबादी को लेकर बनवारी लाल भडिया के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर रतनलाल डीडवानिया के मकान तक वहा से दक्षिण में चलते हुये रामगोपाल कन्हैयालाल डीडवानिया के नोहरे तक वहा से पूर्व में घुमकर चलते हुये मूरारीलाल जोशी के मकान को लेते हुये पूर्व में चलते हुये राजकुमार ढानी वाले के मकान (खेतान निवास) तक वहा से उतर की तरफ सडक पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुये जुगलकिशोर माली की पान की दुकान को सम्मिलित करते हुये लाल कुआ बालाजी के मन्दिर को पश्चिम में सुमार करते हुये बडा बाजार में उतर की ओर चलते हुये बदरजी पंच की दुकान तक वहा से पश्चिम को चलते हुये बस स्टेण्ड पर स्थित शिवालय प्याऊ पिपल गड्टा व बडगट्टा इसके साथ रखी काठ की केबिनो को सुमार कर श्री रघुनाथ विद्यालय के भवन तक रास्ते की दक्षिणी आबादी को लेते हुये वहा से पश्चिम में चलकर प्रारम्भिक बिन्दु मांगीलाल ढाणी वाले तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वार्ड 12 होगा।</p>
13	<p>प्रारम्भिक बिन्दु हारुण गौरी के मकान से दक्षिण में चलते हुये सलीम तेली के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर महबुब सेयद के मकान तक उतरी आबादी शामिल करते हुये वहा से उतर में घुमकर कासम सेयद के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर अक्तर के मकान तक वहा से उत्तर में घुमकर सलीम भूटो के मकान तक पश्चिमी आबादी को शामिल कर वहा से पूर्व में जाहागीर लीलगर के मकान तक वहा से उतर में चलते हुये इसाक लीलगर के मकान तक पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुये वहा से पश्चिम में घुमकर आमीन गीदावाले की दुकान तक दक्षिणी</p>

	आबादी को शामिल करते हुये वहा से दक्षिण में चलते हुये रमजान यासीन तेली के मकान दुकान तक पूर्वी आबादी को शामिल कर वहा से पश्चिम में चलकर तयुब रमजान बागडोदिया के मकान तक वहा से दक्षिण में घुमकर पुनः प्रारम्भिक बिन्दु हारुण गौरी के मकान तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वार्ड 13 होगा।
14	प्रारम्भिक बिन्दु इलीयास तेली माजीवाला पौदार गेस्ट हाउस के पीछे वहा से दक्षिण में चलकर भूतनाथ मन्दिर को शामिल कर वहा से पश्चिम में चलकर भूतनाथ मन्दिर उतरी पश्चिमी कोने पर पहुचकर वहा से दक्षिण में भूतनाथ की दिवार के सहारे चलते हुये हसना कुंजड़ा के मकान को लेते हुये वकील कमरुदीन सिक्का के मकान तक वहा से पूर्व में घूमकर जीवण झील पर बनी विद्युत गुमटी को शामिल कर वहा से दक्षिण में घुमकर पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये युसुफ बहलीम के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर चलते हुये उतरी आबादी को शामिल करते हुये दक्षिण में घुमकर हाजी इब्राहिम मो तगाला वहा से पूर्व में घुमकर उतरी आबादी को शामिल कर रमजान खोकर के मकान तक वहा से उतर में घुमकर पश्चिमी आबादी को शामिल कर इस्लामिया मदरसा तक वहा से पश्चिम में घुमकर हुसैन सेयद की दुकान तक वहा से उतर में घुमकर पश्चिम आबादी को लेते हुये नवाब युसुफ बागडोदिया वहा से पश्चिम में घुमकर उमर मस्जिद पर पहुचकर वहा से उतर में पुराणिया कुआ बकरा मण्डी को शामिल कर अयुब नाई की दुकान तक वहा से पश्चिम में घुमकर यासीन सरखेल प्याऊ को शामिल कर वहा से दक्षिण में घुमकर इसाक तेली के मकान तक वहा से पश्चिम में घुमकर प्रारम्भिक बिन्दु इलियास तेली माजी वाला तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वार्ड 14 होगा।
15	प्रारम्भिक बिन्दु फजलुदीन पुत्र श्री नूरालीलगर की दुकानो एवं मकानात से दक्षिण में चलते हुये हसनजी तेली के मकान को शामिल कर वहा से दक्षिण में चलते हुये बकरा मण्डी एवु पुराणिया कुआ को पश्चिम में छोडते हुये याकुबतेली के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर साजिद नुर मोहम्मद तक वहा से उतर में घुमकर पश्चिमी आबादी को लेते हुये जामा मस्जिद तक वहा से उतर में बाबु हाजी के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर पीर मोहम्मद तगाला तक वहा से उतर में घुमकर शोकत तेली के मकान तक वहा से पश्चिम में घुमकर दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुये मोहम्मद बापु के मकान तक वहा से पश्चिम में चलते हुये अक्तर पुत्र अब्दुल रजाक तेली की दुकान तक वहा से दक्षिण में घुमकर गुलाब तेली की हवेली को लेते हुये पश्चिम में घुमकर प्रारम्भिक बिन्दु फजलुदीन पुत्र श्री नूरालीलगर की दुकानो एवं मकानात तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वार्ड 15 होगा।
16	प्रारम्भिक बिन्दु जगदीश प्रसाद रोहलण के मकान के उत्तरी पश्चिमी कोने से दक्षिण में चलते हुए पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये चेजारो के मन्दिर शमशान के पूर्व से होते हुए कुवैती धर्मशाला को पश्चिम में छोडते हुये मोहम्मद कुरैशी के नोहरे को लेते हुये पूर्व में घुमकर सलीम की कोठी को लेते हुये यासीन सिक्का के नोहरे तक उत्तरी आबादी को लेते हुये वहा से उत्तर में घुमकर शमशानो की दीवार के सहारे सहारे हाजी गुलाम हुसैन के नौहरे तक पौदार गेस्ट हाउस को छोडते हुये वहा से पूर्व में घुमकर युसुफ खोकर व्यापारी के मकान तक की उत्तरी आबादी लेते हुये पुरानियां कुआ को पूर्व दिशा में छोडकर उत्तर दिशा में चलते हुए भूरे खां सरखेल के मकान तक की पश्चिमी आबादी लेते हुये वहा से पूर्व में घुमकर उत्तरी आबादी लेते हुये हुसैन धोबी के मकान तक वहा से उत्तर में चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये निसार अहमद परिहार के मकान

	तक वहा से पश्चिम में घुमकर अब्दुल रहमान खिलजी के मकान तक वहा से पश्चिम में चलते हुए अब्दुल गनी खिलजी के मकान तक की दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुये वहा से दक्षिण में घुमकर मुन्नीर कायमखानी के मकान तक की पूर्वी आबादी को लेते हुये वहा से पश्चिम में घुमकर प्रारम्भिक बिन्दू तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वाई नं 16 होगा।
17	प्रारम्भिक बिन्दु अवतार कायमखानी जाजोदवाले (होटल रॉयल किंग) वहा से दक्षिण में चलते हुये राजकीय जोधराज मोहनलाल बजाज सी.सै. स्कूल को शामिल कर कुये तक वहा से पुनः दक्षिण में चलते हुये इब्राहिम तेली के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर मजिद मार्केट के पिछे पीरू जी तेली के मकान तक वहा से दक्षिण में चलकर सलीम जिन्द्राण के मकान तक वहा से पश्चिम में चलकर फारूक गौरी के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर अबुबकर कुरैशी की दुकानो तक उतरी आबादी को शामिल करते हुये वहा से उतर में घुमकर रफीक बिसायती की दुकान तक न्यामा बाजार रोड वहा से पुनः उतर चलकर सुशील जोशी के मकान तक रूपजी ढण्ड के मकान को शामिल कर वहा से पूर्व में घुमकर बाबुलाल सुरोलिया के मकान तक वहा से उतर में घुमकर रामावतार ढण्ड के मार्केट तक वहा से पश्चिम में घुमकर दक्षिणी आबादी को शामिल कर पुनः प्रारम्भिक बिन्दु (होटल रॉयल किंग) अवतार कायमखानी जाजोदवाले तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वाई 17 होगा।
18	प्रारम्भिक बिन्दु गौरी हार्डवेयर दुकान (तोदी कॉलेज रोड) से दक्षिण में चलकर इन्दोरिया के नोहरे तक वहा से पूर्व में घुमकर हेमराज कुमावत के मकान तक वहा से दक्षिण में चलते हुये इकबाल पडिहार के नोहरे तक वहा से पश्चिम में चलते हुये गन्नी धोबी के नोहरे तक वहा से दक्षिण में घुमकर समसुदीन काजी के घर तक वहा से पूर्व में चलकर इस्लामुदीन जादु के मकान तक वहा से दक्षिण में घुमकर सतार जादू के मकान तक वहा से पूर्व में चलते हुये हारुण बरा तेली के मकान तक उतरी आबादी को शामिल करते हुये वहा से दक्षिण में चलते हुये नानू तेली के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर आमीन तेली मकान तक वहा से उतर में घूमकर जालु तेली के मकान व पश्चिम आबादी को शामिल करते हुये पूर्व में घुमकर रफीक तेली के मकान तक वहा से उतर में चलकर हकीम तेली के मकान तक व सदीक आमीन गौरी के मकान तक वहा से उतर में चलते हुये इमामुदीन बहलीम के मकान तक वहा से पुनः उतर में चलते हुये पश्चिम आबादी को शामिल कर गन्नी गौरी के मकान तक वहा से पुनः उतर में चलते हुये कुंजडा की गली से चिरंजी नाई की दुकान तक वहा से पश्चिम में तोदी कॉलेज रोड चलते हुये दक्षिणी आबादी लेते हुये पुनः प्रारम्भिक बिन्दु गौरी हार्डवेयर दुकान तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वाई 18 होगा।
19	प्रारम्भिक बिन्दु अकरम बिसायती का नोहरा से दक्षिण में चलते हुये पूर्वी आबादी लेते हुये गाडिया लुहार टालाराम लुहार के मकान तक वहा से पूर्व में सडक चलते हुये उतरी आबादी को शामिल करते हुये सुभाष सुरेका के मकान तक वहा से उतर में घुमकर पश्चिम आबादी को शामिल करते हुये मांगीलाल मोची होते हुये सकडी गली में चलते हुये आमीन बिसायती की दुकान व मकान तक वहा से पश्चिम में घुमकर दक्षिणी आबादी को सुमार करते प्रारम्भिक बिन्दु अकरम बिसायती के नोहरे (मोचियो की बगीची) तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वाई नं 19 होगा।
20	प्रारम्भिक बिन्दु मगाराम खींची से दक्षिण में चलते हुये खुर्म बिसायती के खाली प्लाट तक वहा से पूर्व में घुमकर उतरी आबादी को शामिल करते हुये गिरधारी जागिड के मकान तक वहा से दक्षिण में घुमकर कच्चे रास्ते होते हुये मोचियो की दुकान तक स्टेडियम रोड तक वहा से पुनः

	दक्षिण में चलते हुये चतुरभुज ब्राह्मण के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर पूर्णानार्थ की बगीची को छोडते हुये सडक सडक रामप्रताप माटोलिया के मकान तक वहा से पश्चिम में घुमकर बनवारी जालान के नोहरे तक वहा से दक्षिण में घुमकर कायमखानी गेस्ट हाउस तक वहा से पूर्व में तोदी कॉलेज रोड सडक पर चलते हुये उत्तरी आबादी शामिल कर मिश्रा की बगीची में निर्मित दुकानो तक वहा से उतर मे सडक चलते हुये मोचियो के कुएे तक वहा से स्टेडियम रोड पर पूर्व में चलते हुये घासीराम माली के मकान से उतर में घुमकर पश्चिम आबादी शामिल कर खटिको की धर्मशाला तक वहा से पश्चिम घुमकर खीची फ्लोर मील को लेते हुये प्रारम्भिक बिन्दु मंगाराम खीची के मकान तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वार्ड 20 होगा।
21	प्रारम्भिक बिन्दु उंकारमल खटीक के मकान से दक्षिण में चलते हुये पूर्वी आबादी को शामिल कर वजीर जी लीलगर के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर स्टेडियम रोड सडक सडक मुस्ताक बिसायती की दुकान व मकान तक वहा उत्तर में घुमकर पश्चिमी आबादी लेते हुये लतीफ पुत्र हनीफ बक्स बिसायती के मकान तक वहा से पश्चिम घुमते हुये दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुये फकरुद्दीन बिसायती के मकान तक वहा से उत्तर में घुमकर पूर्व में कावडियो की कुई को शामिल कर पुनः उत्तर में घुमकर द्वारका प्रसाद बागडी के घर तक वहा से पश्चिम में घुमकर भगताराम खटीक के मकान को शामिल करते हुये वहा से पश्चिम में चलते हुये दक्षिणी आबादी को लेते हुए मुन्नाराम टांक तक वहा से पुनः पश्चिम में घुमकर प्रारम्भिक बिन्दु उंकारमल खीची तक तक उक्त सीमा से घिरा क्षेत्र वार्ड 21 होगा।
22	प्रारम्भिक बिन्दु ओमप्रकाश पारिक से दक्षिण में चलते हुये पूर्वी आबादी शामिल कर नानुराम बिसायती के मकान तक वहा से पुनः दक्षिण में चलते हुये जमिल खिलजी के नोहरे तक वहा से पूर्व में घुमकर रामजीलाल हुडील वाला के मकान तक वहा से दक्षिण में घुमकर महावीर जी दरोगा के मकान तक वहा से दक्षिण में चलते हुये पूर्वी आबादी लेते हुये पतली गली में पश्चिम दक्षिण चलते हुये तोदी कॉलेज रोड पर पहुंचकर जमिल तैली के नोहरे एवं मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर जनता रेस्टोरेन्ट तक वहा से उत्तर में घुमकर साबुदीन लुहार के कारखाने तक वहा से पश्चिम में घुमकर देवीदत्त इन्दोरिया एवं सुरेश दायमा को लेते हुये उत्तर में चलते हुये बेणीप्रसाद रिणवा तक वहा से पश्चिम में घुमकर लोडुराम सरावगी के मकान तक दक्षिणी आबादी को लेते हुये उत्तर में घुमकर प्रारम्भिक बिन्दु ओमप्रकाश पारीक तक उक्त सीमा रेखा से घिरा क्षेत्र वार्ड नं 22 होगा।
23	प्रारम्भिक बिन्दु बैंकटेस मन्दिर भैरव भवानी चौक के पूर्वी कोने से दक्षिण में चलते हुये डाकणियो के मन्दिर को शामिल करते हुये श्री निवास लोहिया के भूखण्ड पर निर्मित दुकानात से पश्चिम में घुमकर सडक चार चौक की हवेली के पिछवाडे तक वहा से दक्षिण में घुमकर रोशन लुहार के कारखाने तक वहा से दक्षिण में घुमकर फेज मोहम्मद के मकान तक वहा से पुनः दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये बस स्टेण्ड पर स्थित मुरारको की हवेली तक वहा से पूर्व में घुमकर मनोहर जलाशय (प्याउ) तक वहा से उत्तर में घुमकर बडा बाजार में चलते हुये शिवालय चौपड को शामिल करते हुये पारिक मार्केट (कनिका जनरल स्टोर) तक वहा से पूर्व में घुमकर उत्तरी आबादी को शामिल कर मुस्ताक बिसायती के मार्केट तक वहा से पुनः पूर्व में चलते हुये बालाजी जनरल स्टोर तक वहा से संकडी गली उत्तर की तरफ घुमते हुये शीधे चलते हुये पुरूषोत्तम सोनी तक वहा से पुनः उत्तर में चलते हुये चौखाणियो की हवेली के

	पिछवाडे तक वहा से पश्चिम में घुमकर स्टेशन रोड तक वहा से दक्षिण में घुमकर चौखाणियों की हवेली को शामिल करते हुये गोयनका की हवेली से पश्चिम में घुमकर प्रारम्भिक बिन्दु वैंकटेश मन्दिर तक उक्त सीमा रेखा से धिरा क्षेत्र वार्ड 23 होगा।
24	प्रारम्भिक बिन्दु बनवारी बील की दुकान से दक्षिण की तरफ चलते हुये गणेश मन्दिर को लेते हुये पूर्वी आबादी लेते हुये घण्टाघर को (पश्चिम) में छोड़ते हुये लाल कुआ को सम्मिलित करते हुये चिराणियों के खुर्रे तक मदनलाल जाजोदिया के भूखण्ड पर निर्मित व्यवसायिक दुकानों तक वहा से पूर्व की तरफ घुमकर उत्तरी आबादी को सम्मिलित करते हुये बंशीधर लेसवाल के मकान तक वहा से उत्तर की तरफ घुमकर पश्चिमी आबादी को लेते हुये महावीर प्रसाद गुवाल तक वहा से पूर्व में घुमकर बुधकरण पण्डा की दुकान तक वहा से उत्तर में सडक सडक चलते हुये पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुये महेन्द्र जोशी के मकान तक वहा से पश्चिम में घुमकर कबुतरिया कुआ व दक्षिणी आबादी को सम्मिलित करते हुये पुनः प्रारम्भिक बिन्दु बनवारी बील की दुकान तक उक्त सीमा रेखा से धिरा क्षेत्र वार्ड 24 होगा।
25	प्रारम्भिक बिन्दु भजनलाल सुनार के मकान से सडक सडक दक्षिण में चलते हुये पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये दामोदर भार्गव के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर जोखीराम भार्गव के मकान तक वहा से सांवरमल पुत्र भानीराम कुमावत के मकान तक वहा से पूर्व में चलकर सांवरमल पुत्र भानीराम के मकान के पूर्वी कोने से उत्तर में घुमकर पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुये हुक्मीचन्द चेजारा से उत्तर में चलते हुये जसरासरियों के नोहरे को लेते हुये सागरमल मिश्र के मकान तक पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुये वहा से पश्चिम में घुमकर दक्षिणी आबादी को शामिल कर प्रारम्भिक बिन्दु भजन लाल सोनी तक उक्त सीमा रेखा से धिरा क्षेत्र वार्ड 25 होगा।
26	प्रारम्भिक बिन्दु शंकर डाकोत के नोहरे से दक्षिण में लिंक रोड पर चलते हुए पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये रामलाल जांगिड यालसर वाले के दामाद के मकान से पूर्वी उत्तरी तरफ घुमते हुये पश्चिमी आबादी को सुमार कर उत्तर में चलते हुये ओमप्रकाश बागडी के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर उत्तरी आबादी को शामिल कर कालुराम खटीक के मकान तक विद्यालय नं 3 के सामने से पूर्व में चलते हुये गिरधारी कुमावत के मकान तक वहा से उत्तर में घुमकर पश्चिमी आबादी लेते हुये मोहनलाल माली के मकान तक उत्तर में चलते हुये चिरन्जी लाल सोनी के मकान तक वहा से पश्चिम में घुमकर दक्षिणी आबादी को सम्मिलित कर पश्चिम में चलते हुये राकेश जांगिड के मकान को शामिल करते हुये गिरिश कुमावत के मकान को शामिल कर पुनः पश्चिम में चलते हुये शंकरलाल चेजारा तक चौक शामिल कर पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये महावीर चक्की वाले की दुकान को शामिल कर पुनः पश्चिम में घुमकर प्रारम्भिक बिन्दु शंकर डाकोत के नोहरे तक उक्त सीमा रेखा से धिरा क्षेत्र वार्ड 26 होगा।
27	प्रारम्भिक बिन्दु सोढाणियों के कुये से दक्षिण की तरफ चलते हुये चिरंजीलाल साबु के नोहरे तक वहा से पश्चिम में घुमकर मोतीलाल बडगुर्जर तक वहा से दक्षिण में मुन्नाजी बडगुर्जर तक वहा से पश्चिम में घुमकर दक्षिणी आबादी लेते हुये दुलीचन्द वासुदेव खटीक तक वहा से दक्षिण में घुमकर पूर्वी आबादी को सम्मिलित करते हुये बाबुलाल जमादार के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर आशाराम मास्टर के मकान तक उत्तरी आबादी को सम्मिलित करते हुये वहा से हरिसिंह शेखावत के मकान तक वहा से पूर्व में घुम कर रामसिंह राजपूत तक वहा से उत्तर में



	घुमकर पश्चिमी आबादी को शामिल कर सुवालाल चेजारा तक वहा से पूर्व में घुमकर उत्तरी आबादी को शामिल कर नाहरमल चेजारा तक वहा से उत्तर में घुमकर पश्चिम आबादी को शामिल कर पुरूषोत्तम चेजारा तक वहा से पश्चिम में घुमकर दक्षिणी आबादी को शामिल कर प्रारम्भिक बिन्दु सोढाणियो के कुये तक उक्त सीमा रेखा से धिरा क्षेत्र वार्ड 27 होगा।
28	प्रारम्भिक बिन्दु गैस एजेंसी कार्यालय सीकर रोड दक्षिण में चलते हुये सडक नगरपालिका अन्तिम सीमा रेखा खसरा नं 41/9/1 तक वहा से पूर्व में घुमकर कुआ कोठी सत्यनारायण मौजुराम चेजारा तक वहा से उत्तर की ओर घुमकर पण्डो की बगीची के पास जलदाय विभाग की गुमटी तक वहा से पश्चिम में घुमकर ओपप्रकाश चेजारा के मकान तक वहा से दक्षिण में घुमकर निवास चेजारा के मकान तक वहा से पश्चिम में घुमकर दक्षिणी आबादी को शामिल कर ओमप्रकाश खटीको के नोहरे तक वहा दक्षिण में घुमकर सुरेन्द्र सिंह रणवा के मकान तक वहा से पश्चिम में घुमकर प्रारम्भिक बिन्दु कार्यालय गैस एजेन्सी तक उक्त सीमा रेखा से धिरा क्षेत्र वार्ड 28 होगा।
29	प्रारम्भिक बिन्दु राजकुमार शर्मा भूमावाला से दक्षिण में चलते हुये पूर्वी आबादी को शामिल कर सांवरमल खाती के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर उत्तरी आबादी लेते हुये बनवारी लाल सत्यनारायण के मकान तक वहा से दक्षिण में राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र तक वहा से पूर्व की ओर घुमकर मनोज पुत्र नथमल चेजारा के मकान दुकान तक वहा से उत्तर में घुमकर पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुये मुरारीलाल बडया के मकान तक वहा से पश्चिम में घुम कर दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुये जुगल किशोर बडिया के मकान को शामिल करते हुये पश्चिमी आबादी को सूमार कर भोलाराम बडिया के मकान तक वहा से पुनः पश्चिम में घुम कर दक्षिणी आबादी को सुमार करते हुये प्रारम्भिक बिन्दु राजकुमार शर्मा भुमावाला के मकान तक उक्त सीमा रेखा से धिरा क्षेत्र वार्ड 29 होगा।
30	प्रारम्भिक बिन्दु बजरंगलाल गणपत पुजारी के मकान से दक्षिण में चलते हुये रास्ते की पूर्वी आबादी लेते हुये महावीर सोमानी के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर उत्तरी आबादी को लेते हुए मंगतुराम चेजारा के मकान व बाडे तक वहा से उत्तर की तरफ घुमकर रास्ते की पश्चिमी आबादी को लेते हुये श्यामजी के मन्दिर तक वहा से पूर्व में घुमकर व्यासो के मकान तक उत्तरी आबादी लेते हुये वहा से उत्तर में घुमकर सुशील शर्मा के मकान को उत्तर में शुमार कर वहा से पूर्व में घुमकर पशु चिकित्सालय को उत्तर में लेते हुये व रामेश्वर बलाई को दक्षिण में छोडते हुये पूर्व की ओर चलते हुये केशरदेव बलाई तक की उत्तरी आबादी को शामिल करते हुये केशरदेव बलाई को दक्षिण में छोडते हुये वहा से पावर हाउस रोड तक की पश्चिमी आबादी को लेते हुये वहा से पश्चिम मे घुमकर सडक ध्यानदास का कुआ राणी सती मन्दिर तक की दक्षिणी आबादी को सम्मिलित करते हुये प्रारम्भिक बिन्दु बजरंगलाल गणपत पुजारी के मकान तक उक्त सीमा रेखा से धिरा क्षेत्र वार्ड 30 होगा।
31	प्रारम्भिक बिन्दु मांगू मणियार से दक्षिण में घूमकर केशरदेव बलाई के मकान तक पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये वहां से पश्चिम में घूमकर पशु चिकित्सालय को उत्तर में छोडते हुये व रामेश्वर बलाई को लेते हुये मंगल जी जोशी की आटा की चक्की तक पूर्वी आबादी लेते हुये शुभकरण जोशी के मकान तक वहां से दक्षिण में घूमकर पूर्वी आबादी को लेते हुये शुभकरण जोशी के मकान तक रास्ते की पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये वहां से रामोतार जोशी के

	मकान तक वहां से दक्षिण में घूमकर रास्ते की पूर्वी आबादी को लेते हुये पण्डो की बगीची तक वहा से नगरपालिका की सीमा पूर्व उत्तर को चलते हुये रेलवे लाईन चलकर वहां पश्चिम में चलते हुये दक्षिण आबादी को शामिल करते हुये दक्षिण आबादी को शामिल करते हुये प्रारम्भिक बिन्दु मांगु मणियार तक उक्त सीमा रेखा से घिरा क्षेत्र वार्ड न 31 होगा।
32	प्रारम्भिक बिन्दु राजेश पुत्र मुरारीलाल वैद्य के मकान से दक्षिण में चलते हुये किशन लाल सैनी को पश्चिम में छोड़ते हुये दक्षिण में चलते हुये पावर हाउस रोड पर काबरो का नोहरा तक वहा से पावर हाउस रोड से पूर्व दिशा में चलते हुये पावर हाउस व रेलवे लाईन तक की उत्तरी आबादी को लेते हुये लाईन पार करके बद्राणा के जोहड़े तक वहां से उत्तर में ढोलास के रास्ते पहुंचकर वहां से पश्चिम में घूमकर फाटक पार करके दक्षिण आबादी को लेते हुये एस.आर. स्कुल रोड़ होते हुये प्रारम्भिक बिन्दु राजेश पुत्र मुरारीलाल वैद्य के मकान तक उक्त सीमा रेखा से घिरा क्षेत्र वार्ड न 32 होगा।
33	प्रारम्भिक बिन्दु विद्याधर खीचड के मकान से दक्षिण में चलते हुये पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये सलीम रमजान के मकान तक वहा से पूर्व की ओर चलते हुये उत्तरी आबादी को सुमार करते हुये रेल्वे ट्रैक तक वहा से दक्षिण में घुमकर पटरी पटरी सफी बाडीवाला के प्लाट व गुमटी तक रेल्वे सर्विस रोड वहा से पश्चिम में घुमकर प्रारम्भिक बिन्दु विद्याधर खीचड के मकान (सुनारो की बगीची) तक उक्त सीमा रेखा से घिरा क्षेत्र वार्ड न 33 होगा।
34	प्रारम्भिक बिन्दु महेश जी सैनी की दुकान से दक्षिण में घुमकर पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये गौरी शंकर जी चुडीवाला तक वहा से पूर्व में घुमकर उत्तरी आबादी को सम्मिलित करते हुये परमेश्वर लुहार तक वहा से दक्षिण में घुमकर सत्यनारायण गुवाल के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर पुजारी भवन ऋषीकुल विद्या पीठ रामलिला मैदान को सम्मिलित करते हुये रामकुमार सैनी के मकान तक वहा से उत्तर में घुमकर किशनलाल सैनी को लेते हुये उत्तर में कच्चे रास्ते चलते हुये नटवर जोशी के खण्डहर मकान को सम्मिलित करते हुये एस.आर. रोड पर पहुंच कर वहा से पूर्व में घुमकर कासम पिनारा के मकान व दुकान तक वहा से उत्तर में घुमकर पश्चिमी आबादी को लेते हुये नथमल जांगिड के मकान तक वहा से पश्चिम में घुमकर दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुये प्रारम्भिक बिन्दु महेश सैनी की दुकान तक उक्त सीमा रेखा से घिरा क्षेत्र वार्ड न 34 होगा।
35	प्रारम्भिक बिन्दु रामनिरंजन पारिक के मकान से दक्षिण में चलते हुये पूर्वी आबादी को लेते हुये वासुदेव शर्मा का नोहरा से पश्चिम में घुमकर बनवारी जी नौ कोठेवाला तक वहा से दक्षिण में घुमकर दामोदर ढोलास वाला तक वहा से पश्चिम में घुमकर ओमप्रकाश महर्षि तक वहा से दक्षिण में घुमकर जोधराज पारीक की चक्की तक वहा से पूर्व में घुमकर नागरिक परिषद की प्याउ तक वहा से दक्षिण में घुमकर चिरन्जी लाल जांगिड के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर उत्तरी आबादी लेते हुये छिगनजी शास्त्री के प्लाट तक वहा से दक्षिण में रेल्वे सर्विस रोड घुमकर फाटक पर पहुंच कर रेल्वे लाईन लाईन ढोलास फाटक पहुंच कर वहा से पूर्व में घुमकर ढोलास रोड बदराणा जोडा तक वहा से उत्तर में कच्चे रास्ते घुमकर एफसी आई गोदाम मुकुन्दगढ रोड पर पहुंच कर वहा से पश्चिम में चलते हुये दक्षिण आबादी लेते हुये रेल्वे पुराना फाटक क्रॉस करते हुये रघुनाथ अस्पताल के भूखण्ड का पूर्वी दक्षिणी कोने तक वहा से उत्तर में घुमकर रघुनाथ अस्पताल के भूखण्ड के उत्तरी पूर्वी कोने तक वहा से पश्चिम में घुमकर प्रारम्भिक बिन्दु राम

	निरंजन पारीक के मकान तक उक्त सीमा रेखा से घिरा क्षेत्र वार्ड न 35 होगा।
36	प्रारम्भिक बिन्दु श्याम लाल नोहपाल के मकान से दक्षिण में चलते हुये स्टेशन रोड पर महावीर क्याल के नोहरे तक वहा से पूर्व में घुमकर चौखाणियो की हवेली को पश्चिम में छोडते हुये दक्षिण में घुमकर गुसाईयो के मन्दिर से पूर्व में चलते हुये रामदेवजी मन्दिर को सुमार कर रघुनाथ अस्पताल को शामिल कर उत्तर में घुमकर रघुनाथ अस्पताल उत्तरी पूर्वी कोने तक वहा से पश्चिम में घुमकर बाजोरिया की हवेली तक वहा से उत्तर में घुमकर बाबुलाल जी सुरोलिया वहा से उत्तर में घुमकर बैणी प्रसाद के खाली प्लाट तक वहा से पूर्व में घुमकर गणेश नाई के मकान तक वहा से उत्तर में घुमकर पश्चिम आबादी लेते हुये गायत्री मन्दिर के पिछे से उत्तर में चलते हुये शुभम गार्डन के कोने तक वहा से पश्चिम में घुमकर स्टेशन रोड पश्चिम चलते हुये प्रारम्भिक बिन्दु श्यामलाल नोवाल के मकान तक उक्त सीमा रेखा से घिरा क्षेत्र वार्ड न 36 होगा।
37	प्रारम्भिक बिन्दु सार्वजनीक निर्माण विभाग के उत्तरी पश्चिमी कोने से दक्षिण में घुमकर दामोदर चुनवाल के मकान तक वहा से पुनः दक्षिण में चलते हुये पूर्वी आबादी को शामिल कर गोपाल पुत्र भीवाराम माली के नोहरे तक वहा से पूर्व में घुमकर पंचायत समिति को शामिल कर पूर्व में चलते हुये बुद्धाराम कुम्हार तक वहा से दक्षिण में घुमकर सलैदी वाला के जाव को शामिल करते हुये सुनील शर्मा के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर उत्तरी आबादी को लेते हुये पालडीवाला की प्याउ तक वहा से दक्षिण में चलते हुये सांवरमल पालडीवाले के नोहरे को शामिल कर वहा से पूर्व में मुकन्दगढ रोड पुराना रेल्वे फाटक को क्रोस करते हुये बगडिया स्कुल बालाजी मन्दिर की आबादी को लेते हुये नगर सीमा तक वहा से उत्तर में चलकर महाबक्स गोयनका खेत व धर्मशाला को सम्मिलित कर बासनी के रास्ते पर सुर्यनगर को शामिल कर रेल्वे फाटक से पश्चिम दक्षिण चलते हुये राधेश्याम व्यास के मकान तक वहा से पश्चिम में घुमकर दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुये चन्द्रकला व्यास के मकान तक वहा से दक्षिण में घुम कर नाथजी की वैदिक पाठशाला तक वहा से पश्चिम में घुमकर दक्षिणी आबादी लेते हुये प्रारम्भिक बिन्दु सार्वजनीक निर्माण विभाग तक उक्त सीमा रेखा से घिरा क्षेत्र वार्ड 37 होगा।
38	प्रारम्भिक बिन्दु खेत खसरा 397 से दक्षिण में चलते हुये एसटीपी रोड पर पहुंचकर वहा से पूर्व में घुम कर उत्तरी आबादी को शामिल करते हुये सुरेश मिश्रा के फार्म हाउस तक वहा से दक्षिण में घुमकर पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये श्याम सूनंर सैनी के मकान तक वहा से पूर्व में घुमकर घासी जी व्यास के खाली प्लाट तक वहा से उत्तर में घुमकर पश्चिमी आबादी को शामिल कर बीलजी की कोठी तक वहा से पश्चिम में घुमकर गोपाल सैनी के मकान तक वहा से उत्तर में घुमकर पश्चिमी आबादी को लेते हुये बुद्धाराम माली तक वहा से उत्तर में घुमकर राजकीय पशु चिकित्सालय को शामिल करते हुये पूर्व में घुमकर नाथजी के आश्रम को शामिल करते हुये उत्तर में घुमकर घासी जी व्यास के खेत को शामिल कर पूर्व में घुमते हुये बासनी फाटक तक वहा से पश्चिम में घुमकर नगरपालिका सीमा चलते हुये दर्जियो के बालाजी मन्दिर तक वहा से पुनः पश्चिम सीमा चलते हुये खसरा नं 397 तक घिरा क्षेत्र वार्ड 38 होगा।
39	प्रारम्भिक बिन्दु एसटीपी रोड से दक्षिण में घुमकर वैदो की कुई तक वहा से पश्चिम में घुमकर जयपुरिया शमशान घाट के पश्चिमी उत्तरी कोने पर पहुंच कर वहा से जयपुरिया घाट की दिवार को शामिल करते हुये काल्पनिक रस्ते से दक्षिण में घुमकर शंकर बागडी (कबाडी) के मकान को

	<p>सुमार करते हुये दक्षिण में चलते जीतमल बागडी तक वहा से पूर्व में घुमकर उत्तरी आबादी को शामिल करते हुये महावीर पारीक के मकान तक वहा से दक्षिण में चलकर पूर्वी आबादी को शामिल कर हरलाल की हवेली तक वहा से पूर्व में घुमकर मुरली मनोहर मन्दिर तक उत्तरी आबादी को लेते हुये उक्त मन्दिर को बाया सूमार कर रोड मावलियो की ढाणी रोड पर उत्तर में चलते हुये रास्ते की पश्चिम आबादी को शामिल कर भैरव भवानी चौक तक वहा से पूर्व में घुमकर देवीदत्त गोयनका की हवेली तक उत्तरी आबादी को लेते हुये वहा से उत्तर में घुम कर स्टेशन रोड चलते हुए जांगिड भवन तक वहा से पश्चिम में घुमकर बाबुलाल जांगिड के कारखाने तक वहा से उत्तर में घुमकर सीताराम कुमावत के नोहरे तक वहा से पश्चिम में एस.टी.पी. रोड घुमकर प्रारम्भिक बिन्दु एस.टी.पी. रोड तक उक्त सीमा रेखा से घिरा क्षेत्र वार्ड नं 39 होगा।</p>
40	<p>प्रारम्भिक बिन्दु एनएच 52 से ग्राम मानासी के रास्ते दक्षिण में चलते हुये बजाजो का कुआ पेपाराम जाट पुत्र गोपीराम जाट को पूर्व में लेते हुये खटीको का कुआ ब्रहमानन्द आश्रम तक वहा से पूर्व में घुमकर उत्तरी आबादी को लेते हुये लालचन्द दायमा के घर तक वहा से दक्षिण में घुमकर रास्ते की उत्तरी पूर्वी आबादी को लेते हुये ताराचन्द बागडी से उत्तर में घुमकर श्याम जी बागडी (टैण्ट वाले) को सम्मिलित करते हुये जयपुरिया शमशान घाट की भूमि के डण्डे के सहारे चलते हुये चिरन्जी लाल तिवाडी के जाव को पूर्व में छोडते हुये खसरा नं 397 व 324 323 की सीमा चलते हुये एनएच 52 प्रारम्भिक बिन्दु तक धिरा क्षेत्र वार्ड 40 होगा।</p>

अधिशायी अधिकारी

नगरपालिका लक्ष्मणगढ सीकर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।